



Goldiam International Ltd

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF DIAMONDS & JEWELLERY
CIN:L36912MH1986PLC041203

March 4, 2020

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001. Scrip Code: 526729	To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Mumbai- 400 051. Scrip Code: GOLDIAM EQ
--	--

Dear Sir/Madam,

Sub: BUY-BACK OF FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 (RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARES") BY GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED ("COMPANY") VIA THE "OPE MARKET" ROUTE THROUGH THE STOCK EXCHANGES ("BUYBACK").

With respect to the Buy-back, in accordance with the Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations, the public advertisement regarding completion of the Buy-back ("Public Advertisement") dated March 03, 2020 was published on March 04, 2020 in the following newspapers and the Public Advertisement contains all the material information as specified in Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations.

Newspaper	Language	Editions
Financial Express	English	All
Jansatta	Hindi	All
Mumbai Tarun Bharat	Marathi	Mumbai

Please find enclosed copy of the published Public Advertisement.

Please feel free to contact the undersigned if you require any information or clarification.

Yours sincerely,
For **Goldiam International Limited**


Pankaj Parkhiya
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai

Encl.:- As above

Registered Office

Gems & Jewellery Complex, Santacruz Electronics Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai-400096. India

Phones: (022) 28291893/28290396/28292397 Fax : (022) 28292885 Email:-

investorrelations@goldiam.com

Website: www.goldiam.com

From the Front Page

March 16 deadline: Banks seek more time to give on/off switch for cards

INDEED, SOME bankers pointed out that at a time when there is a government project to migrate the country's public transportation infrastructure to contactless payments, the new security feature actually runs counter to that goal. "The government's plan for the NCMC (National Common Mobility Card) is based entirely on contactless and, in fact, assumes that all cards are enabled for contactless payments. What does such a notification mean then for that project?" a banker said.

On January 15, RBI had issued a notification directing banks to offer the facility to carry out all international card-based transactions as also contactless card transactions to only those users who specifically choose to avail it. The notification said that the directive is aimed at improving user convenience and increasing the security of card transactions.

Spectrum dues: Voda Idea pays ₹3,043 cr to govt

ACCORDING to the department of telecommunications (DoT), the ₹13.823 crore.

So far Bharti Airtel has also paid ₹18,000 crore towards its AGR dues against DoT's calculation of ₹35,586 crore. Bharti has said as per its calculations its dues stand at ₹13,000 crore and it has paid an additional ₹5,000 crore to cover any reconciliation differences.

Meanwhile, sources said that DoT will write fresh letters to telecom operators like Bharti Airtel and Tata Teleser-

vices questioning them about the variation in AGR dues assessed by them and its own calculations. It is likely that the matter may be challenged in the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal at a later date.

The DoT has also asked all telecom operators to furnish names of their managing directors and their addresses stating that this needs to be furnished to the Supreme Court.

PM to give away social media a/cs to 'inspiring' women

THE PM IS one of the most-followed world leaders on social media with 53.3 million followers on Twitter, 44 million on Facebook and 35.2 million on Instagram.

The Twitter handle of Prime Minister's Office has 32 million followers.

In September 2019, Modi was the third-most followed world leader on the microblogging site, behind only US President Donald Trump and his predecessor Barack Obama. The PM was the first Indian to cross the 50-million followers mark on Twitter.

INDIA GYCOLS LIMITED

Notice is hereby given that the Board of Directors of India Gycols Limited, through Circular Resolution passed on 3rd March, 2020, has declared an Interim Dividend of ₹2/- per equity share (8.60% of the face value of ₹10/- each for the financial year ending 31st March, 2020. The Company has fixed the Record Date as Thursday, 12th March, 2020 for determining entitlement of the shareholders for the payment of aforesaid Interim Dividend. The Interim Dividend will be paid/dispensed on or before 31st March, 2020 to those members of the Company whose names would appear on the Register of Members and to the beneficial owners whose particulars would be furnished by the Depositories as on the Record Date.

The information is also available on the Company's website at www.indiagycoll.com and the website of the Stock Exchanges (where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)).

For India Gycols Limited
Sd/-
Place: Noida, U.P. Ankur Jain
Date: 03-03-2020 Company Secretary

In the Matter of IA No. 651 of 2019 in CP (IB) No. 67/BB/2019
M/s. Chincholi Sugar and Bio Industries Limited (Company in Liquidation)
LIST OF STAKEHOLDERS
[Reg. 31 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016]

The Stakeholders list of M/s. Chincholi Sugar and Bio Industries Limited in liquidation is available with Hon'ble NCLT, Bengaluru. To get the stakeholders list send email to chincolihlp@gmail.com; chincolisugarcsl@gmail.com.

G Madhusudan Rao
Liquidator
For M/s. Chincholi Sugar and Bio Industries Limited
IBBI Reg No.: IBB/I/PA-001/IP-001811/2017-18/10360

CORRIGENDUM

Please refer RFP No. SBI/AC/2019-20/006 dated 07/02/2020 for Installation of 6,000 ATMs under Total Outsourcing Model (TOM) PHASE XIV (YR. 2020). Amended RFP for installation of 10,000 ATMs will be published. Hence, Pre-bid meeting with bidders scheduled on 05.03.2020 from 15.00 Hrs. - 17.00 Hrs. has been deferred. Further information in this regard and on RFP will be published in due course.

Sd/-
Deputy General Manager
(ATM-I&S)

ASPINWALL AND COMPANY LIMITED
CIN: L74999KL1920PLC001389

Pursuant to the Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is to be held on Wednesday, the 11th day of March, 2020, inter-alia, to consider declaration of Interim Dividend on the equity shares of the Company.

The copy of this notice is also posted on the website of the Company at www.aspinwall.in and also on the website of stock exchange at www.nseindia.com.

For ASPINWALL AND COMPANY LIMITED
Sd/-
Trivandrum - 03 Neeraj R Varma
Date: 03/03/2020 Company Secretary

MEGHMANI ORGANICS LIMITED
CIN No. L24110GJ1995PLC024052

Notice of Record Date for payment of Interim Dividend - Financial Year 2019-20

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [the Listing Regulations] read with Section 91 of the Companies Act, 2013 and any other applicable provisions, if any, the Board of Directors at their meeting held on March 03, 2020 has fixed Monday, March 16, 2020 as Record Date for the purpose of determining the shareholders entitlement to receive Interim Dividend of Rs. 1/- (i.e. 100%) on Equity Share of Rs. 1/- each for the Financial Year 2019-20.

For Meghmani Organics Limited
Sd/-
K D Mehta
Date: 03/03/2020
Place: Ahmedabad Vice President (Company Affairs)

Shree Cement
SHREE CEMENT LIMITED
REGD. OFFICE: BANGUR NAGAR, BEAWAR – 305 901, DISTT. AJMER, RAJASTHAN
E-Mail : shreebwr@shreecement.com | Website : www.shreecement.com
Phone : 01462- 228101-06 | FAX : 01462- 228117-19 | CIN: L26943RJ1979PLC001935

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") as notified by the Ministry of Corporate Affairs and as amended from time to time. IEPF Rules, among other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF").

Amount of interim dividend of year 2012-13 declared by the Company on 29th April, 2013 remaining unpaid/unclaimed for a period of seven years will become due for credit to IEPF Authority on 04th June, 2020 together with corresponding shares on which dividend has remained unpaid. The Company has sent communication to all such concerned shareholder(s) at their addresses registered with the Company, inter alia, providing the details of unpaid dividend(s) and shares being transferred to IEPF.

The list of shareholders to whom the intimation has been sent is uploaded on website of the Company at www.shreecement.in. Shareholders can verify the details of unpaid/unclaimed dividend and the shares liable to be transferred from the sharebite of the Company.

The last date for the concerned shareholders to approach the Company for claiming the unpaid dividend and shares shall be 15th May, 2020 failing which the Company shall transfer the dividend amount together with shares to IEPF Authority in accordance with the procedure prescribed under IEPF Rules.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice for the purpose of transfer of shares to IEPF.

The concerned shareholder, however, may note that even upon transfer of dividend/ shares to IEPF Authority as above, they can claim the said shares along with dividend(s) from IEPF Authority, for which detailed procedure and requirements are available at www.iepf.gov.in, as well as on Company's website.

For further information, concerned shareholder may contact any of the following addresses: -

M/s. Shree Cement Limited Post Box No. 33, Bangur Nagar, Beawar 305901, Distt. Ajmer, Rajasthan Tel: 01462-228101-06 Fax No.: 01462-228117/119 Email: investor@shreecement.com Website: www.shreecement.com	M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. Unit: Shree Cement Limited C-101, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083, Maharashtra Tel: 022-49186270 Fax: 022-49186060 Email: rtn.helpdesk@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in
---	--

For SHREE CEMENT LIMITED
Sd/-
S. S. Khandelwal
Company Secretary

GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L36912MH1986PLC041203

Registered Office: Gems & Jewellery Complex, SEEPZ, MIDC, Andheri East, Mumbai 400096, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22-28291893 | Fax No.: +91 22-28292885 | E-mail: investorrelations@goldiam.com Website: www.goldiam.com
Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Pankaj Parkhiya

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter) by Goldiam International Limited ("the Company") of its equity shares from the members of the Company (other than the promoters, promoter group and persons in control of the Company).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated February 13, 2020 issued on February 14, 2020 ("Public Announcement"), issued in connection with the Buyback (as defined below). Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

- THE BUYBACK**
 - Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("Companies Act") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 23A of the articles of association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the board of directors of Goldiam International Limited (the "Company") (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at their meeting held on February 12, 2020 (the "Board Meeting"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten Only) (the "Equity Shares") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are promoters or the persons in control of the Company and promoter group (hereinafter collectively referred to as the "Promoters"), from the open market through stock exchange mechanism i.e. using the electronic trading facilities of the Stock Exchanges, for a total amount not exceeding Rs. 12,36,91,680/- (Rupees Twelve Crores Thirty Six Lakhs Ninety One Thousand Six Hundred and Eighty Only) (the "Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding Rs. 160/- (Rupees One Hundred Sixty Only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred herein as "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include brokerage costs, filing fees, intermediaries' fees, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty and any other transaction charges incurred or to be incurred for the Buyback (collectively referred to as "Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represented 5.60% and 3.32% of the aggregate of the Company's paid-up share capital and free reserves based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively as at March 31, 2019 (being the latest available audited financial statements of the Company).
- The Buyback commenced on February 25, 2020 and closed on March 2, 2020. Till the date of closure of the Buyback, the Company has utilized 99,79,35,253.2% of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only).
- The total number of shares bought under the Buyback is 7,91,073 Equity Shares.

DETAILS OF THE BUYBACK

- The Company bought back an aggregate of 7,91,073 Equity Shares, utilizing a total of Rs. 12,34,36,288/- (Rupees Twelve Crores Thirty Four Lakhs Thirty Six Thousand Two Hundred Eighty Eight only) (excluding Transaction Costs), which represents approximately 99.79352532% of the Maximum Buyback Size with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only). The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was Rs. 160,000 per Equity Share while the lowest price was Rs. 153,5380 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of Rs. 156,0965 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Trust Financial Consultancy Services Private Limited ("Company's Broker"), and exclude Transaction Costs.
- The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchanges. The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back.
- All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

- The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on March 2, 2020 (post completion of the Buyback) is set forth below:

Sr. No.	Particulars	In Rupees	
		Pre-Buyback (as on the date of the Public Announcement)	Post Buyback* (as on March 2, 2020)
1	Authorized Share Capital:		
	3,10,00,000 Equity Shares of INR 10/- each	31,00,00,000/-	31,00,00,000/-
	Total	31,00,00,000/-	31,00,00,000/-
2	Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:	22,96,59,960/-	22,17,49,230/-
	2,29,65,996 Equity Shares of INR 10 each (Pre-Buyback- no. of equity shares)		
	2,21,74,923 Equity Shares of INR 10 each (Post-Buyback – no. of equity shares)		
	Total	22,96,59,960/-	22,17,49,230/-

* The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

Category of the Shareholder	Pre-Buyback		Post Buyback*	
	No. of Shares	% to the existing Equity share Capital	No. of Shares	% to the Equity share Capital
(A) Promoter & Promoter Group	1,44,24,672	62.8088	1,44,24,672	65.0495
(B1) Institutions	0	0	0	0
(B2) Central Government/ State Government(s)/President of India	0	0	0	0
(B3) Non-Institutions	0	0	0	0
(B) Public	85,41,324	37.1912	77,50,251	34.9505
(C1) Shares underlying DRs	0	0	0	0
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0	0	0
(C) Non-Promoter-Non-Public	0	0	0	0
Total	2,29,65,996	100	2,21,74,923	100.00

* The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

MANAGER TO THE BUYBACK

For and on behalf of the Board of Directors of Goldiam International Limited

Sd/- Rashesh Bhashali Executive Chairman DIN: 00057931	Sd/- Anmol Rashesh Bhashali Whole-time Director DIN: 07931599	Sd/- Pankaj Parkhiya Company Secretary
---	--	--

Date: March 3, 2020
Place: Mumbai

TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
109/110, Balaranga, Bandra Kuria Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4084 5000; Fax: +91 22 4084 5007
Website: www.trustgroup.in
Investor grievance e-mail: customercare@trustgroup.in
SEBI Registration No.: INM000011120
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
Contact Person: Mr. Ankur Jain
CIN: U67190MH2006PTC162464
For further details please refer to the Company's website (www.goldiam.com) and the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com)

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(vi)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Goldiam International Limited

Sd/- Rashesh Bhashali Executive Chairman DIN: 00057931	Sd/- Anmol Rashesh Bhashali Whole-time Director DIN: 07931599	Sd/- Pankaj Parkhiya Company Secretary
---	--	--

Date: March 3, 2020
Place: Mumbai

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF ALAN SCOTT INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L99999MH1994PLC076732)
("ASIL" / TARGET COMPANY" / "TC")
Registered Office: 39, Purva Industrial Estate, Makwana Road, Off. Andheri Kuria Road, Mumbai-400 059
Phone No. +91-96532 38501 Email: alan.scottindustrieslimited@gmail.com; Website: www.alanScottind.com

This Advertisement is being issued Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Suresh Kumar Pukhraj Jain (Acquirer) along with Mr. Pranav Dangi (PAC) pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 1,78,199 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00 % of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta (Hindi Daily) all editions and Mumbai Lakshadep (Marathi Daily) on 30th December, 2019.

- The Offer Price is Rs. 25/- (Rupees Twenty Five Only) per equity share payable in cash ("Offer Price").
- Committee of Independent Directors ("IDC") of the Target Company of the opinion that the Offer Price of Rs. 25/- (Rupees Twenty Five Only) offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. The recommendation of IDC was published in the aforementioned newspapers on 3rd March, 2020
- There has been no competitive bid to this Offer.
- The completion of dispatch of The Letter of Offer ("LOF") to all the Public Shareholders of Target Company was completed on 27th February, 2020.
- Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com and shareholders can also apply on plain paper as per below details:
Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details.
- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on 6th January, 2020. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its Letter No. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2020/6161 dated 14th February, 2020 which have been incorporated in the LOF.
- Any other material change from the date of PA: Nil
- Schedule of Activities:**

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	20.12.2019	Friday	20.12.2019	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	30.12.2019	Monday	30.12.2019	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	06.01.2020	Monday	06.01.2020	Monday
Last date for a Competing offer	20.01.2020	Monday	20.01.2020	Monday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	27.01.2020	Monday	14.02.2020	Friday
Identified date*	29.01.2020	Wednesday	18.02.2020	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	05.02.2020	Wednesday	27.02.2020	Thursday
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	10.02.2020	Monday	03.03.2020	Tuesday
Last date for revising the Offer Price	11.02.2020	Tuesday	04.03.2020	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, sending of statutory and other approvals in newspapers and status to SEBI, Stock Exchanges and Target Company	11.02.2020	Tuesday	04.03.2020	Wednesday
Date of Opening of the Offer	12.02.2020	Wednesday	05.03.2020	Thursday
Date of Closure of the Offer	27.02.2020	Thursday	19.03.2020	Thursday
Payment of consideration for the acquired shares	13.03.2020	Friday	07.04.2020	Tuesday

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is only owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the parties to the SPA including persons deemed to be acting in concert with such parties) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:

Manager to the Offer:
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kuria Road, Andheri (East),
Mumbai-400-059 Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078 Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Vikas Chhangani

Place: Mumbai
Date: 03.03.2020

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF AMALGAMATED DEVELOPMENT LIMITED

CIN: L70190WB1948PLC016546, Registered Office: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata: 700 022,
Tel. No. : 033- 2223 0016; Fax No. : 033- 2223 1569,
Email: ceo@amalgated.in; Website: www.amalgateddevelopment.in

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer PA") is being issued by Placid Limited ("Placid"), forming part of the Promoters/ Promoter Group (hereinafter referred to as the "Acquirer"), of M/s. Amalgated Development Limited (hereinafter referred to as the "Company") ("ADL"). This Post Offer PA is for the notice of the public shareholders of the Company in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of fully paid-up equity shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") (hereinafter referred to as the "Stock Exchange") where the equity shares of the Company are currently listed pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 as amended (the "Delisting Regulations"). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated 08.02.2020, published on 10.02.2020 ("Public Announcement")/ "PA" and the Letter of Offer ("LOF") dated 08.02.2020. The capitalized terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.

The Acquirer had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF, up to 1829 equity shares representing 10.45% of the fully paid-up equity share of the Company from its Public Shareholders. Since CSE does not have nation-wide trading terminal, the Public Shareholders holding equity shares of ADL were invited to submit their bids pursuant to the reverse book-building Process ("RBB Process") conducted through the Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited, during the bid period (i.e. 18.02.2020 to 26.02.2020), in accordance with the Delisting Regulations.

- DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE:**
In terms of Regulation 15(1) read with Schedule II of the Delisting Regulations, the price determined as Discovered Price (being the price at which shares accepted through eligible bids tendered in the RBB Process results in the shareholding of the Promoters/ Promoter Group reaches to 90% of the fully paid-up equity share of the Company) is Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share. The Acquirer has accepted the Discovered Price of Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share as the final price for the Delisting Offer ("Exit Price").

- SUCCESS OF THE DELISTING OFFER:**
 - In terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 14(ii) of the PA and clause 15(ii) of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 79 (Seventy Nine) equity shares representing 0.45% of the fully paid-up equity share of the Company were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Promoters/ Promoter Group post acquisition under the Delisting Offer through the Acquisition Window Facility to be equal to or in excess of 15,750 (Fifteen Thousand Seven Hundred Fifty) representing 90% of the fully paid-up equity share of the Company.
 - The Acquirer will acquire 275 (Two Hundred and Seventy Five) equity shares which were validly tendered at the Exit Price, which is higher than the minimum number of equity shares (i.e. 79) required for the Delisting Offer to be successful in terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations. Pursuant to the completion of such acquisition, the shareholding of the Promoters/ Promoter Group shall be 15,946 (Fifteen Thousand Nine Hundred Forty Six) representing 91.12% of the fully paid-up equity share of the Company.
 - In terms of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 14(iii) of the PA and clause 15(iii) of the LOF, at least 1 (One) Public Shareholder i.e., (minimum of 25% of the number of Public Shareholders holding Equity Shares in Dematerialized form as on 21.02.2019 (i.e. the date of the meeting of the Board of Directors approving the Delisting Offer or "Board Meeting Date") were required to participate in the RBB Process, provided that if the Acquirer along with the Manager to the Offer demonstrates that they have delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or a courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "LOF Delivery Requirement"), then the mandatory procedure of affording a number of the Public Shareholders is not required. Further, pursuant to Explanation 1 of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirer or the Manager to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirer or the Manager to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.

- Maheshwari Datamatics Private Limited, Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on 11.02.2020 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., 31.01.2020 through Registered Post only. The certificate dated 11.02.2020 by Registrar to the Offer regarding dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders will also be submitted to CSE as a proof, in accordance with the proviso to Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations.
- The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations.

- All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price will be paid consideration at the Exit Price of Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only). The last date of payment of consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price and whose Bids have been accepted will be Thursday, 12.03.2020.
- In regard to the Equity Shares of the Public Share

राजस्व सचिव एबीपी पांडे वित्त सचिव मनोनीत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

राजस्व सचिव एबीपी पांडे को मॉलवार को वित्त सचिव मनोनीत किया गया। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी को वित्त सचिव मनोनीत किए जाने को मंजूरी दे दी। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हुआ था।

झारखंड कैडर के 1984 बैच के

आइएएस अधिकारी कुमार को पिछले साल जुलाई में वित्त सचिव नामित किया गया था।

गुजरात कैडर के 1985 बैच के आइएएस अधिकारी अतनु चक्रवर्ती फ़िलहाल आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं। वहीं ओडिशा कैडर के 1985 बैच के आइएएस अधिकारी तुहीन कंठ पांडे निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग के सचिव व तमिलनाडु कैडर के उनके सहकर्मि टीवी सोमानाथन व्जय विभाग में सचिव हैं। उसी बैच के देवाशीष पांडा वित्तीय सेवा सचिव हैं।

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (असिसेट) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने बर्णित करीया, उन पर लागू दरो पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आम भुगतान (अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी चार्ज, लागत, प्रमाद इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार का नाम / सह-कर्जदार का नाम / ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रु. में) / प्राप्ति तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
मैरस एच एम व्बू ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रोप्राइटर श्री जावेद कुरेशी / श्री जावेद कुरेशी / श्री अफजाल कुरेशी / श्री हाज़िद कुरेशी / श्री दानिश कुरेशी / श्री शाहीब कुरेशी / 461एफएससी4250670	रु. 53,84,208.67/- 28-नवम्बर-19	सांकेतिक 29-फरवरी-20

सम्पत्ति का वर्णन: वाणिज्यिक इकाई संख्या / स्पेस नं. 7 बी (एनजी) 27.87 वर्ग मीटर को मानने के लिए) 7 जी (एनजी)-22.30 वर्ग मीटर को मानने के लिए) 7 एफ (एनजी)-20.07 वर्ग मीटर को मानने और 7 एच (एनजी)-20.07 एसीआर को मानने के लिए) कुल प्रयेस 90.31 वर्ग मीटर। ब्लॉक नं 4-5 (ज़ात जूना बाजार) के रूप में स्थित, संजय पेसे कॉमर्शियल स्क्रीम, हरि पर्वत बार्ड, आगरा उपत्यका प्रदेश। 2 नम ऑफ अकजल कुरेशी, जावेद कुरेशी, दानिश कुरेशी, हाज़िद कुरेशी, शाहीब कुरेशी भी सुनिश्चिद (एस) के आसपास के रूप में उल्लेख किया है। पूर्व - मार्ग, पश्चिम-यूनिट नंबर - 10, उत्तर - यूनिट नंबर - 8, दक्षिण यूनिट नंबर - 6।

जबकि इसमें उक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों को विधि रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि असिसेट के अधोहस्तक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उनको प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां उक्त वर्णित संपत्तियों / प्रतिभूत आसितियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरिर्णित शक्तियों को प्राप्त करने में है। विशेष रूप से उक्त वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आसितियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आसितियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार असिसेट के प्रचार के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली, हस्ता: / प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 04-03-2020 असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएफ: U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय: दि. रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बाघट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन: + 91 2266581300

शाखाएँ: इंदौर, लखनऊ, सेरा टेम्पस, नॉर 2, डी.बी.ए. लोकल शॉपिंग सेंटर, निकट विद्या भवन गल्लू सीनियर सेकेंड्री स्कूल, एमजीआर रोड, न्यू राजिवर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन: 011-46370444

Fullerton
फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय: मुख्य निवेशक, एन 4 ए एन स्ट, बी.सी. रोड, मुंबई-400 076
शाखा कार्यालय: बी-45/47, नैनी रोड, निवेशक पीकेआर प्लाजा, कन्नड़ पेस, नई दिल्ली-110001

वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन ("अधिनियम") एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्तक्षरी ने अधिनियम के तहत एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एफआईसीएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदारों को सूचना सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्यक सूचना (ओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा था। अधोहस्तक्षरी को सांकेतिक रूप से विचारवा है कि कर्जदार मांग सूचना (ओं) को सेवा की अदेखी कर रहे हैं अतः सूचना को सेवा नियमों के अनुसार चिकाकर तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग सूचना की विवरण सामूची निम्नवत है:

कर्जदार (ों) का नाम	मांग सूचना की तिथि	अवल सम्पत्ति/बकाय संपत्तियों का विवरण
खाता सं.: 1730263000009070 1. श्री प्रदीप खन्वड़ा 2. सुशी प्रदीपान खन्वड़ा 3. कार्मिक मंत्रालय, इण्डिया (पी) लि., इकके निवेशक के माध्यम से	सूचना की तिथि: 07/01/2020 मांग की राशि: 1, श्री प्रदीप खन्वड़ा रु. 6,02,88,136/- (रुपये छ: करोड़ दो लाख अठ्ठासी हजार एक सौ छठीसौ मात्र) जैसा कि ऊपर उल्लिखित है तथा 07.01.2020 तक भुगतान की गई वसूली तक उस पर प्रयोज्य ब्याज, ऋणसंचयक ब्याज, बायर्स प्रभार, लागत एवं ब्याज	प्लॉट सं. ए-1, साकेत हिस्ट्रिक स्टोर, साकेत, नई दिल्ली में स्थित भूमि के प्लॉट मांग 9492 वर्ग मीटर अथवा लगभग पर निर्मित "न" संरचना कौट, "डीएलएफ साकेत" नाम बुधवारिवाले मय में समति सं. डीएसी-118, 128, प्लॉट नं. 07/01.2020 तक भुगतान की गई वसूली तक उस पर प्रयोज्य ब्याज, ऋणसंचयक ब्याज, बायर्स प्रभार, लागत एवं ब्याज

कर्जदारों को मांग सूचना (ओं) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ ऊपर उल्लिखित मांग राशि को भुगतान की वसूली की तिथि तक प्रयोज्य ब्याज, अधिभार ब्याज, बायर्स प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकारकी तथ्या के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कृपया ध्यान दें कि एफआईसीएल प्रचिनृत लेण्डर है और कर्जदार (ों) द्वारा ली गयी श्रेण्य सुविधा कर्जदार (ों) द्वारा बन्धकपत्र प्रतिभूत आसित (ों) होने के कारण अवल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत बन्ध है। यदि कर्जदार निर्धारित समय-सीमा में अपनी देयदार श्रेण्य में असफल रहते हैं तो एफआईसीएल विक्री द्वारा अथवा अधिनियम तथा उसके तहत विरुद्ध के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार द्वारा शक्ति किन्तु सीमित नहीं, अथवा सहित प्रतिभूत आसित (ों) को बन्धक लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा और भुगतान की वसूली करेगा। एफआईसीएल को तथ्या को अनुरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आसित (ों) को कब्जा तथा/अथवा सील करने की शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आसित (ों) को विक्री के अडकन में एफआईसीएल को, यदि बन्धकपत्र संपत्तियों का मूल्य एफआईसीएल के बकाया देयदारों की पूर्ण से लिए आसितों से भी बने बकायों को वसूली के लिए असेट से विकिकार्यालयी करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत एफआईसीएल के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अधिकार तथा समान है।

प्रतिभूत आसितियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की और तथा अधिनियम की धारा 13(13) अडकृत किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एफआईसीएल को लिखित रूप में समति के बिना प्रतिभूत आसित (ों) को निरालग्न या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूत आसित को विक्री, पट्टे या अन्य विधि से अनुरण (सामान्य व्यवसाय की प्राप्ति को छोड़कर) नहीं कर सकेगा और उपर्युक्त का अनुपालन न करना कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत एक पण्डित अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्तक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्तक्षरी से कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यालयी दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

ह./-
भूपेंद्र सेन
स्थान: दिल्ली, तिथि: 03.03.2020 फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आरम्भ किए "सेंट्रल" "CENTRAL" से YOUNG SINCE 1911
शाखा कार्यालय: जसोला, जी-47 कालिन्दी कुंज रोड, नई दिल्ली-110025

कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली** शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्तक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **02/01/2020** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री जितेन्द्र पुत्र राम किशन एवं श्री प्रवीण पुत्र राम किशन**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.12,58,884/-** (बारह लाख अठानव हजार आठ सौ चौरासी रुपये मात्र) उक्त सूचना के प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ-साथ आम ब्याज एवं लागत के साथ आपकी यह राशि **विनि-क्रेडिट सुविधाओं के सन्ध में**। उक्त सूचना में उल्लिखित राशि के बदले भविष्य में ब्याज एवं आकरिमिक शुल्क के साथ कुल बकाया राशि में से आपने **रु.36,000/-** (छत्तीस हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया है। कर्जदार को इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्तक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **27 फरवरी, 2020** को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.12,58,884/-** (बारह लाख अठानव हजार आठ सौ चौरासी रुपये मात्र) और उस पर ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली शाखा के प्रचार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उपा-अनुच्छेद (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवल सम्पत्ति का विवरण
सांख्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो भूगतान पर बिना छत अधिकार के, प्लॉट नं.6, खसरा नं. 525/1/ पी डी डी का मांग, साईं घाट कालोनी, विषयाणा बुजुर्ग, परगना एवं तहसील दादर, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उडुपपी, जो धिरा है: उत्तर: ठाकुरदत्त शर्मा की सम्पत्ति दक्षिण: सड़क 17 फीट पूर्व: मकान देसायज दक्षिण: प्लॉट दीगर

स्थान: गौतमबुद्ध नगर, उडुपपी प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 27.02.2020 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

JAIN CO-OPERATIVE BANK LTD., HO: 80, DARYA GANJ, NEW DELHI-110002

Phone : 011-28832213, 9650735998 Email: jainbank@rediffmail.com, Web Address: www.jainbank.com

SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC

Whereas under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer has issued following demand notices for the recovery of amount due as mentioned against the name of each borrower / sureties / mortgagor. Further in exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer has taken the possession of the under mentioned secured assets which are held as securities in respect of mortgage OD limit to **M/s Sambhav Textiles (Prop. Sh. Neeraj Jain)**. Whereas the sale of the secured assets is to be made through Sale Notice for recovery of secured debt due to Jain Co-operative Bank Ltd. as mentioned below:

The Bank intends to sale the property DETAILED HEREBUNDER ON '**AS IS WHERE IS BASIS**' THROUGH 'SALE BY INVITING SEALED TENDERS' on or before **07.04.2020 at 4.00 PM.**

Sealed Tender may be put in the Box provided at the Branch Premises of the Bank at 80, Darya Ganj, New Delhi-110002

S. No.	Name of borrower (A/c No. & Sureties Sh/Int)	Amount Recoverable as On 18.02.2020	Description of property As per Valuation Report	Reserve Price	Earnest Money Deposit @10% of Reserve Price	Date and Time of Inspection	Date and Time of Auction
1.	M/s Sambhav Textiles (Prop. Sh. Neeraj Jain. A/c No. 0241/101010058 at Gandhi Nagar Branch S1: Manoj Jain S2: Renu Jain	Rs. 26,49,637.00 + further Interest, Cost and Expenses	C-44, measuring 32 Sq. Yards, 2nd Floor and 3rd Floor with roof rights, Gald No. 4, North Chhajajpur, Ilauqa Shahdara, Delhi-110094	Rs. 20,40,000.00	Rs. 2,04,000.00	03.04.2020 DURING 11.00 A.M. TO 12.00 Noon	08.04.2020 DURING 3.00 P.M. TO 4.00 P.M.

Terms and Conditions:

The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions:
5. No. 1. The particular of secured assets specified in the schedule hereinabove have been stated to the best of information of the Authorized Officer but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
6. The sealed covers will be opened by the Authorized Officer at Jain Co-operative Bank Ltd., 80, Darya Ganj, New Delhi-110002 in the presence of available / intending bidders as per the above SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS.
7. The aforesaid property shall not be sold below the reserve price mentioned above. Intending bidders are required to deposit the earnest money deposited stated above by way of pay order/ demand draft payable at Delhi and favouring Jain Co-operative Bank Ltd. drawn on any nationalized or scheduled Bank along with the letter for participation in the bid. The said deposit shall be adjusted in the case of successful bidder, otherwise refunded on the same day or later on as decided by the Authorized Officer. The Earnest Money Deposited will not carry any interest.
8. The Successful bidder should deposit 25 percent of the bid amount (inclusive of EMD) on the same day of the sale or within such extended time as permitted by the Authorized Officer, and balance bid amount i.e. 75% (within 15 days from the date of auction. In case of default, all amounts deposited till then shall be forfeited including earnest money.
9. After opening the tenders, the intending bidders may be given an opportunity, at the discretion of the Authorized Officer, to have inter- se bidding among themselves to enhance the offer price in the multiple of Rs. 25,000/-.

6. The highest bid will be subject to approval of the Authorized Officer.
7. The Authorized Officer reserve the right to accept or reject any bid or postpone or cancel the auction or opening of the tenders without assigning any reason and also to modify any terms and conditions of this sale without any prior notice.
8. If the dues of the Bank together with all costs, charges and expenses incurred by Bank or part thereof as may be acceptable to the Bank are tendered / on behalf of the borrower / sureties at any time on or before the date fixed for sale, the sale of assets may be cancelled.
9. All statutory dues / attendant charges / other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser. The Sale certificate shall be issued in the same name in which the Bid is submitted.
11. Any other encumbrances are not known to the Bank. The Authorized Officer or the Bank shall not be responsible for charges, lien, encumbrances or any other dues to the government or anyone else in respect of the properties. The intending bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc.
12. On deposit of EMD, the bidder shall submit ID proof, copy of PAN Card, proof of residential address, bidder name, mobile number and contact number.
13. Further enquiries if any and on the terms and conditions of sale can be made with the Authorized Officer at the address mentioned above.

STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES

The borrower / sureties / mortgagor are hereby notified by the pa as mentioned above alongwith upto date interest and ancillary expenses before the date of Auction, failing which the property will be auctioned / sold and the balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.
Date: 04.03.2020
Place: New Delhi

Manager / Authorized Officer,
Jain Co-operative Bank Ltd.

GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L36912MH1986PLC041203

Registered Office: Gems & Jewellery Complex, SEEPZ, MIDC, Andheri East, Mumbai 400096, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22 28291893 | Fax No.: +91 22 28292851 E-mail: investorrelations@goldiam.com Website: www.goldiam.com
Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Pankaj Parkhiya

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter by Goldiam International Limited ("the Company") of its equity shares from the members of the Company (other than the promoters, promoter group and persons in control of the Company).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated February 13, 2020 published on February 14, 2020 ("**Public Announcement**"), issued in connection with the Buyback (as defined below). Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

1. THE BUYBACK

1.1. Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 23A of the articles of association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the board of directors of Goldiam International Limited (the "**Company**") (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "**Board**" or the "**Board of Directors**") at their meeting held on February 12, 2020 (the "**Board Meeting**"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten Only) (the "**Equity Shares**") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are promoters or the persons in control of the Company and promoter group (hereinafter collectively referred to as the "**Promoters**"), from the open market through stock exchange mechanism i.e. using the electronic trading facilities of the Stock Exchange, for a total amount not exceeding Rs. 12,36,91,680/- (Rupees Twelve Crores Thirty Six Lakhs Ninety One Thousand Six Hundred and Eighty Only) (the "**Maximum Buyback Size**"), and at a price not exceeding Rs. 160/- (Rupees One Hundred Sixty only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred herein as "**Buyback**"), the Maximum Buyback Size does not include brokerage costs, filing fees, intermediaries' fees, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty and any other transaction charges incurred or to be incurred for the Buyback (collectively referred to as "**Transaction Costs**"). The Maximum Buyback Size represented 5.60% and 3.32% of the aggregate of the Company's paid-up share capital and free reserves based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively as at March 31, 2019 (being the latest available audited financial statements of the Company).

1.2. The Buyback commenced on February 25, 2020 and closed on March 2, 2020. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99,79,35,253.2% of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only).

1.3. The total number of shares bought back under the Buyback is 7,91,073 Equity Shares.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

2.1. The Company bought back an aggregate of 7,91,073 Equity Shares, utilizing a total of Rs. 12,34,36,288/- (Rupees Twelve Crores Thirty Four Lakhs Thirty Six Thousand Two Hundred Eighty Eight only) (excluding Transaction Costs), which represents approximately 99.79352532% of the Maximum Buyback Size with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only). The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was Rs. 160.0000 per Equity Share while the lowest price was Rs. 153.5380 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of Rs. 156.0365 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Trust Financial Consultancy Services Private Limited ("**Company's Broker**") and exclude Transaction Costs.

2.2. The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchange. The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back.

2.3. All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on March 2, 2020 (post completion of the Buyback) is set forth below:

Sr. No.	Particulars	In Rupees	
		Pre-Buyback (as on the date of the Public Announcement)	Post Buyback [#] (as on March 2, 2020)
1	Authorized Share Capital:	3,10,00,000 Equity Shares of INR 10 each	31,00,00,000/-
		Total	31,00,00,000/-
2	Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:	2,29,65,996 Equity Shares of INR 10 each (Pre-Buyback - no. of equity shares)	22,96,59,960/-
		2,21,74,923 Equity Shares of INR 10 each (Post Buyback - no. of equity shares)	22,17,49,230/-
Total	Total	22,96,59,960/-	22,17,49,230/-

[#] The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2. The shareholding pattern of the Company pre-Buyback and post-Buyback is set forth below:

Category of the Shareholder	Pre-Buyback		Post Buyback [#]	
	No. of Shares	% to the existing Equity share Capital	No. of Shares	% to the Equity share Capital
(A) Promoter & Promoter Group	1,44,24,672	62.8088	1,44,24,672	65.0495
(B1) Institutions	0	0	0	0
(B2) Central Government/ State Government(s)/President of India	0	0	0	0
(B3) Non-Institutions	0	0	0	0
(B) Public	85,41,324	37.1912	77,50,251	34.9505
(C1) Shares underlying DFs	0	0	0	0
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0	0	0
(C) Non-Promoter-Non-Public	0	0	0	0
Total	2,29,65,996	100	2,21,74,923	100.00

[#] The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

4. MANAGER TO THE BUYBACK



TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
109/110, Balaranga, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India
Tel : +91 22 4084 5000; Fax : +91 22 4084 5007
Website: www.tiagroup.in
Investor grievance e-mail: customercare@tiagroup.in
SEBI Registration No.: INM000011120
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
Contact Person: Mr. Ankur Jain
CIN: U67190MH2006PTC162464

For further details please refer to the Company's website (www.goldiam.com) and the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com)

5. **DIRECTORS' RESPONSIBILITY**
As per Regulation 24(vi)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepted responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Goldiam International Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Rashesh Bhanalsi Executive Chairman	Anmol Rashesh Bhanalsi Whole-time Director	Pankaj Parkhiya Company Secretary	
DIN: 00057931	DIN: 07931599		

Date: March 3, 2020
Place: Mumbai

एसएसआई फ्रीदाबाद 1एफ/20, एनआईटी फ्रीदाबाद
हरियाणा-121001, ईमेल: dr.8238@syndicatebank.co.in

ई-नौलामी विक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अवल परिसम्पत्

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतर्गत तंटे लवकर मितवण्यासाठी विभागीय स्तरावर तक्रार निवारण समित्या करण

भाजप आमदार पराग अळवणी यांची विधानसभेत मागणी



आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ सदस्यांकडून वारंवार झोपडीधारकांना ५०० चौ. फुटांचे घर देण्याच्या घोषणा होत असल्याने झोपडीधारक व विकास योजना सुरु करत नसून हा गोंधळ संपवणे गरजेचे आहे, अशी मागणी केली. पुनर्वसन सदनिका मिळाल्यापासून दहा वर्षे न विकण्याच्या अटीचा भंग करणाऱ्यांना शेत निष्कासित करणे हे जास्तच कठोर होणार असल्याने त्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय झाला असल्याने सदर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातून अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी दाद मागणी, अशी मागणी केली.

रखड लेल्या अनेक योजनांमधील झोपडीधारकांना विकासकांनी भाडे देणे बंद केले असल्यामुळे सदरचे हजारी झोपडीधारकांचे संसार अक्षरशः रस्त्यावर आले असून त्यांना पुन्हा जुन्या जागेत राहू द्यावेत. त्यांच्यासाठी संक्रमण शिबीर बांधण्याकरिता आम्ही आमदार निधी घ्यायला तयार आहेत, असेही ते म्हणाले.

मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) : 'झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने'च्या १६०० योजनांपैकी ६०० योजनांमधील स्थानिक तंट्यामुळे तक्रार निवारण समितीसमोर प्रकरणे अडकली असून या स्थितीमुळे ३५ टक्के 'झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना' रखडल्या आहेत, अशी माहिती आ. पराग अळवणी यांनी विधानसभेत दिली. तसेच याबाबत तोडगा काढण्यासाठी विभागीय तक्रार निवारण समित्या तयार करण्यात याव्यात, अशी मागणीसुद्धा केली.

खासगी सावकारी जाचामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्यात यावी

चंद्रकांतदादा यांची औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मागणी



मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) : खासगी सावकारी जाचामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ महाविकास आघाडी सरकारने द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली. तसेच, मराठवाडा वैधानिक

विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भगवान कराड यांच्यावरील हल्ल्यातील आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणीही पाटील यांनी केली. पाटील म्हणाले की, "सरकारने कर्जमाफी जाहीर करूनही, खासगी सावकारीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील म्हात्रे वाडीतील एका शेतकऱ्याने खासगी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यामुळे अशा त्रस्त शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच, गेल्या सरकारने अशा प्रकारे खासगी सावकारीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला होता, याची आठवणही यावेळी करून दिली. त्याचप्रमाणे, संभाजीनगर महापालिकेचे माजी महापौर आणि राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भगवान कराड यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध करत, दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी यावेळी केली.

२०११ पर्यंतच्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण निश्चित करा : अॅड. आशिष शेलार



मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) : "भाजप सरकारच्या काळात २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांच्या 'पंतप्रधान आवास योजने'तून घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता याबाबत धोरण निश्चित करण्याची आवश्यकता असून ते धोरण तातडीने सरकारने निश्चित करावे," अशी आग्रही मागणी भाजप नेते, माजी शालेय शिक्षणमंत्री आमदार अॅड. आशिष शेलार यांची विधानसभेत केली.

ते म्हणाले, "मूळ मुंबईकर राहत असलेल्या कोळीवाडा व गावठाणाचा प्रश्न सत्ताधारी पक्ष विसरला. गावठाण, कोळीवाडातील रहिवाशांना जागा कमी पडते म्हणून त्यांनी वरचा मजला वाढविला व त्याला कलेक्टर व महानगरपालिकेकडून नोंदीस बजावण्यात येते. अशा गरजेपोटी वाढवलेल्या गावठाण, कोळीवाडातील घरांना संरक्षण द्या. कोळीवाडा, गावठाणातील मूळ मुंबईकरांना जर स्वतःचे घर दुरुस्ती करायची असेल त्याचे 'डिसेआर'मध्ये प्रावधान नाही. या रहिवाशांना न्याय द्या. 'डिसेआर'मध्ये स्वतंत्र प्रावधान करा," अशी मागणी शेलार यांनी केली. पुढे ते म्हणाले, "वांदे रिक्लमेशन येथील म्हाडाच्या फेज २, फेज ३ मधील म्हाडाच्या भूखंडावर इमारती बांधून लोक राहत आहेत. या सन १९८० दरम्यान उभ्या राहिलेल्या या इमारतीचा प्लान विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मान्य झाला आणि त्यानुसार इमारतीच्या बाजूला सोडण्यात आलेली जागा आवश्यक मोकळ्या जागा आज कन्व्हेंन्सला जाताना म्हाडाचे अधिकारी मात्र रोकटले भूखंड असल्याचे सांगत रहिवाशांची अडवून करीत आहे. यामुळे पुनर्विकासामध्ये या रहिवाशांसाठी मोठी अडचण निर्माण होते. 'ओपन स्पेस' हा 'ओपन प्लॉट' नाही व 'ओपन स्पेस'सहित इमारतीचा कन्व्हेंन्स करावा," अशी मागणी शेलार यांनी गृहनिर्माणमंत्र्यांकडे केली. "मुंबईतील सन २००० नंतर झालेले पण धोरण पुर्याचे पाणी देण्यात यावे, याबाबत न्यायालयाचे आदेश आहेत व त्यानुसार या झोपडीधारकांना पाणी देण्यात येत आहे. मात्र, गावठाण, कोळीवाडातील रहिवाशांकडून याच साठी पुरावे मागण्यात येतात. त्यांचे वीज मीटरदेखील कापण्यात आले असल्याचे याकडे लक्ष वेधत, गावठाण, कोळीवाडातील रहिवाशांना वीज व पाणी द्या," अशी मागणी अॅड. आशिष शेलार यांनी केली.

परळ, शिवडीतील मैदाने सुसज्ज होणार

नूतनीकरणावर ९ कोटी, ८६ लाखांचा खर्च

मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) : मुंबईत मैदान-उद्यानांची मोजकी संख्या असताना आता परळ आणि शिवडीकरांनाही सुसज्ज मैदान आणि मनोरंजन उद्यान मिळणार आहे. शिवडीच्या ज्युबली मिल मैदान आणि मनोरंजन मैदान-उद्यानाचे नूतनीकरण केले जाणार असून यात सुशोभित प्रवेशद्वार, सुरक्षारक्षकांची खोली, शौचालय, सुबक बैठक व्यवस्था, परपथ, दिवे आणि हिरवळीची जागा अशा सर्व सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पातिका १ कोटी, ८६ लाखांचा खर्च करणार आहे.

नूतनीकरण केले जाणार आहे. याअंतर्गत सुशोभित प्रवेशद्वार, सुरक्षारक्षक खोली, शौचालय बनवणे, सुरक्षा भिंतीची पुनर्बांधणी करणे, परपथ तयार करणे, बैठक व्यवस्था करणे, स्केटिंग रिंग बनवणे, पर्जन्यजलवाहिनी दुरुस्ती करणे, मैदानात विद्युत दिवे लावणे आणि हिरवळीची कामे केली जाणार आहेत. त्याचा लाभ आबाजवृद्धांना घेता येणार आहे. पालिकेने यासाठी रावेची अंग्रेज प्रोडक्ट्स या निविदाकाराची निवड केली आहे.

महिला दिनानिमित्त मुलुंडमध्ये विशेष शिबिराचे आयोजन

मुंबई : डॉ. रूपाली

मास्तुरीवाट टिकले यांच्या विद्यमाने रविवार, दि. ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त विशेष निःशुल्क शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुलुंड येथील प्लॅन आयुर्वेद स्किन वेलनेस क्लिनिक, १०१/अ, पहिला कंजवुडी, अश्वविज्ञा, डॉ. आर. पी. रोड, सिंडिकेट बँकेच्या मागे सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत हे शिबीर पार पडणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने त्वचा व केसासंबंधीच्या समस्या आयुर्वेदिक नाडी परीक्षण तसेच संधिवात, कंबरदुखी इ. वातविकार, डायबेटिज, अंसिडीटी, दमा, गॅस, मूळव्याध, स्त्रीविषयक समस्या, सायनस, पीसीओडी, वजनाविषयक समस्या, दातांविषयी तक्रारी (फ्री डेंटल चेकअप) त्याचबरोबर मानसिक व्याधी इत्यादी रोगांचे निदान, त्यावर उपचार व योग्यविषयक मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे. शिबिरास येण्यापूर्वी ९९८०४०४१५ या नंबरवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

कुल्यांत होणार एकत्रित शिवजयंतीचा जल्लोष

मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) :

कुर्ला येथील विविध मंडळांनी एकत्र येत शिवजयंती साजरे करण्याचे योजिले आहे. तिथीनुसार फाल्गुन वैद्य तृतीयेला छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून न्यू भारत क्रीडा मंडळ व कुल्यातील शिवभक्तांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या आयोजन समितीमध्ये एकूण १२५ हून अधिक - लहान मोठी मंडळे व संस्था सहभागी झाल्या आहेत. शिवरायांच्या जीवनावरील विविध चित्ररथ, ढोल ताशा पथके, शिवकालीन शस्त्रकला प्रारत्यक्षिके, परंपरागत हलगी पथक, अशा विविधतेने

मिरवणुकीची शोभा वाढवली जाईल. यानिमित्ताने संपूर्ण कुल्यांत भगवैभय वातावरण, शिवरायांचे पोवाडे, व्याख्याने अशा सर्व गोष्टींनी वातावरण भारून जाणार आहे. या एकत्रित शिवजयंतीच्या निमित्ताने कुल्यांची एक नवीन ओळख मुंबईर निर्माण होईल, अशी आशा सर्व कुलंकरांना आहे व सर्व मुंबईकरांनी या कुलंकरांनी आयोजित केलेल्या एकत्रित शिवजयंतीचा आदर्श ठेवून आपापल्या स्थानी ही अशी एकता साधता येईल का, याचा विचार करावा, असा आयोजन समितीचे म्हणणे आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क किरण दामले - ९८९२४७६४३२,

अभियंत्यांच्या ९०० जागा रिक्त

कामकाजावर परिणाम

मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या ९०० जागा रिक्त असून, २४ विभाग कार्यालयातील कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे अभियंत्यांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, अशी मागणी होत आहे. महापालिकेचे च. य. अ. अभियंत्यांवर सध्या इतर कामांचा भार टाकण्यात आला आहे. मूळ जबाबदारी नसलेली कामे करावी लागत असल्याने त्यातून चुका घडतात आणि अभियंत्यांना जबाबदार धरले जाते, असे अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरल्यास अभियंत्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल, असा विश्वास कामगार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. महापालिका प्रशासन

टप्प्याटप्प्याने अभियंत्यांच्या जागा भरत असले, तरी अजूनही ९०० रिक्त जागा आहेत. त्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. आर्थिक मंदीमुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. त्याबाबत आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. माजी आयुक्त अजय मेहता यांनीही आर्थिक मंदीचे संकट असल्याचे सूचित केले होते. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या



वेतनावर मोठी रक्कम खर्च होते. अभियंत्यांना दरवर्षी प्रत्येकी पाच लाख ते सहा लाख रुपये वेतनापोटी द्यावे लागतात. जबाबदारी नसलेली कामे देऊन दोषी ठरवले जात असल्याचा अभियंत्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे जबाबदारी नेमून देण्याची, तसेच रिक्त पदे भरण्याची मागणी अभियंत्यांक करता येईल.

अभियंत्यांच्या रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामावर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये कमाळीचा असंतोष आहे. ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी आम्ही सातत्याने करत आहोत. रमाकांत बने, सरचिटणीस, दी म्युनिसिपल युनियन

'बेस्ट' बसमध्ये महिला प्रवाशाचा मृत्यू

मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) : बॅकबेहून चर्चेमध्ये दिशेने येणाऱ्या मार्ग क्र. ३३८ या विनाव्हाक 'बेस्ट' बसमध्ये भोवळ येऊन महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाला. या मृत्यूला 'बेस्ट'चे 'विनाव्हाक बस' धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. मार्ग क्र. ३३८ ही बस बॅकबेहून चर्चेमध्ये दिशेने येत होती. या विनाव्हाक बसमध्ये एका महिला प्रवाशाला भोवळ आली आणि बसमध्येच पडली. सहप्रवाशांनी आरडाओरड केली असता बसचालक बस थांबवून आला. परंतु, काय करावे हे त्याला कळना. अखेर त्या महिला प्रवाशाचा बसमध्येच मृत्यू झाला. याप्रकरणी 'बेस्ट' प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाकडे प्रवासी दगावल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. मंगळवारी बस चालक ०३११६ हे बस क्र.

३३८ ही विनाव्हाक बस बॅकबेहून आगारातून चर्चेमध्ये दिशेने घेऊन येत होते. ज्या थांबावर तिकीट द्यायची सोय उपलब्ध आहे. त्या थांब्यावरील प्रवासी घेऊन चालक साहेबराव पुडे निघाले. बस मेकर टॉवरजवळ आली असता आतून ओरडण्याचा आवाज आला. चालकाने गाडी थांबवून काय झाले विचारले असता एक महिला प्रवासी निपचित पडलेल्या अवस्थेत आढळून आली. मात्र, जोडीला वाहक नसल्याने चालकाला काय करावे हे कळत नव्हते. काही क्षण गंगारलेल्या अवस्थेत गेल्यानंतर त्याने १०० नंबरवर फोन करून पोलिसांना बोलावून घेतले. मात्र, तोपर्यंत महिलेचा बसमध्येच मृत्यू झाला. दरम्यान, 'बेस्ट' प्रशासनाच्या हलगर्जीपणा प्रवाशांच्या जीवावर बेतू लागल्याचा आरोप 'समर्थ बेस्ट कामगार संघटने'चे खजिनदार विठ्ठल गवस यांनी केला आहे.

बृहत्मुंबई महानगरपालिका
विभाग: मुख्य अभियंता (यांत्रिक आणि विद्युत)

ई-निविदा सूचना

निविदा प्रपत्र क्र.	बोली क्र. : १. ७९००१७६३५९ २. ७९००१७६३५८ ३. ७९००१७६३८७
संस्थेचे नाव	बृहत्मुंबई महानगरपालिका
विषय	१. विविध महापालिका परिसरांमध्ये बसविलेल्या ८ उदाहरणांचे ३६ महिन्यांच्या कालावधीकरिता (०९.०५.२०१९ ते ३०.०४.२०२२) सर्वसमावेशक सॉल्यूशिंग आणि देखभाल. २. उप. सु. सुरक्षा अधिकारी (झोन-३) भंढे वाडी, एम.टी.एन.एल.व्या समोर, दादर (प) यांच्या कार्यालयामधील हॉलमार्क बनावटीच्या उदाहरणाची दुरुस्ती. ३. दरवाजा क्र. ६, विस्तारित इमारत, महानगरपालिका मुख्यालय येथे बसविलेल्या शिडलर बनावटीच्या ३ उदाहरणांचे सर्वसमावेशक सॉल्यूशिंग आणि देखभाल.
निविदा शुल्क	१. रु. ३७००/- + ५.०% जीएसटी २. रु. ७००/-+ ५.०% जीएसटी ३. रु. ९८००/-+ ५.०% जीएसटी
ई-निविदा शुल्क (अंदाजित किंमत)	----- (बाब दर तत्वावर)
बोली सुरक्षा अनामत/ईअ	१. रु. ४६,२००/- २. रु. ७,९००/- ३. रु. २२,९००/-
निविदा पारित करण्याचा आणि विक्री करण्याचा दिनांक	०४.०३.२०२० रोजी ११.०० वाजेपर्यंत
निविदा विक्रीचा आणि बोली सुरक्षा अनामत स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ	११.०३.२०२० रोजी १२.०० वाजेपर्यंत
पाकीट अ. ब आणि पाकीट क (ऑनलाईन) चे सादरीकरण	११.०३.२०२० रोजी १६.०० वाजेपर्यंत
बोली पूर्व सभा	- लागू नाही -
पाकीट अ उघडणे	१२.०३.२०२० रोजी १६.०१ वा.नंतर
पाकीट ब उघडणे	१२.०३.२०२० रोजी १६.०२ वा.नंतर
पाकीट क उघडणे	१६.०३.२०२० रोजी १३.०० वा.नंतर
संपर्कचा पत्ता	का.अ. यांत्रिक (ई.आय.) देखभाल, बुरुंगमा यांचे कार्यालय, महानगरपालिका वर्कशॉप, आर. एस. निमकर मार्ग, भायखळा, मुंबई - ४०००८८.
बोली उघडण्याचे ठिकाण	का.अ. यांत्रिक (ई.आय.) देखभाल यांचे कार्यालयात ऑनलाईन
बुरुंगमाची वेबसाईट	http://portal.mcg.gov.in

हे निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय आहे.
बुरुंगमा वरील विषयाकरिता प्राप्त झालेले कोणतेही अर्ज स्विकारण्याचे किंवा कोणतेही किंसा सर्व अर्ज कोणतेही कारण न दर्शविता फेटाळण्याचे हक्क राखून ठेवित आहे.

प्रीआरओ/२०१३/एडीव्ही/१९-२० सदी/-
माधु देव, माजी लोकप्रती निवृत्तीचे ती लालु बोदला शाई (श्री. एस. बी. भारती) का.अभि. यांत्रिक (ई.आय.)देखभाल

GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L36912MH1986PLC041203
Registered Office: Gems & Jewellery Complex, SEEPZ, MIDC, Andheri East, Mumbai 400096, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22.26291893 Fax No.: +91 22.26292885 E-mail: investorrelations@goldiam.com Website: www.goldiam.com
Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Pankaj Parkhiya

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 24(v) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter) by Goldiam International Limited ("the Company") of its equity shares from the members of the Company (other than the promoters, promoter group and persons in control of the Company).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated February 13, 2020 published on February 14, 2020 ("Public Announcement"), issued in connection with the Buyback (as defined below). Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

- THE BUYBACK**
 - Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("Companies Act") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 23A of the articles of association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the board of directors of Goldiam International Limited (the "Company") (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at its meeting held on February 12, 2020 (the "Board Meeting"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of Rs.10/- each (Rupees Ten Only) (the "Equity Shares") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are promoters or the persons in control of the Company and promoter group (hereinafter collectively referred to as the "Promoters"), from the open market through stock exchange mechanism i.e. using the electronic trading facilities of the Stock Exchanges, for a total amount not exceeding Rs.12,36,91,680/- (Rupees Twelve Crores Thirty Six Lakhs Ninety One Thousand Six Hundred and Eighty Only) (the "Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding Rs.160/- (Rupees One Hundred Sixty only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred herein as "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include brokerage costs, filing fees, intermediaries' fees, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty and any other transaction charges incurred or to be incurred for the Buyback (collectively referred to as "Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represented 5.80% and 5.32% of the aggregate of the Company's paid-up share capital and free reserves based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively as at March 31, 2019 (being the latest available audited financial statements of the Company).
 - The Buyback commenced on February 25, 2020 and closed on March 2, 2020. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99,79,95,253% of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only).
 - The total number of shares bought back under the Buyback is 7,91,073 Equity Shares.
- DETAILS OF THE BUYBACK**
 - The Company bought back an aggregate of 7,91,073 Equity Shares, utilizing a total of Rs.12,34,36,288/- (Rupees Twelve Crores Thirty Four Lakhs Thirty Six Thousand Two Hundred Eighty Eight only) (excluding Transaction Costs), which represents approximately 99.79952532% of the Maximum Buyback Size with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only). The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was Rs.160.00000 per Equity Share while the lowest price was Rs.153.5380 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of Rs. 156.0365 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Trust Financial Consultancy Services Private Limited ("Company's Broker") and exclude Transaction Costs.
 - The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchanges. The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back.
 - All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**
 - The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on March 2, 2020 (post completion of the Buyback) is set forth below:

Sr. No.	Particulars	In Rupees	
		Pre-Buyback (as on the date of the Public Announcement)	Post Buyback* (as on March 2, 2020)
1	Authorized Share Capital:		
	3,10,00,000 Equity Shares of INR 10 each	31,00,00,000/-	31,00,00,000/-
	Total	31,00,00,000/-	31,00,00,000/-
2	Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:		
	2,29,65,996 Equity Shares of INR 10 each (Pre-Buyback - no. of equity shares)	22,96,59,960/-	22,17,49,230/-
	2,21,74,923 Equity Shares of INR 10 each (Post Buyback - no. of equity shares)		
	Total	22,96,59,960/-	22,17,49,230/-

* The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

- The shareholding pattern of the Company pre-Buyback and post-Buyback is set forth below:

Category of the Shareholder	Pre-Buyback		Post Buyback#	
	No. of Shares	% to the existing Equity share Capital	No. of Shares	% to the Equity share Capital
(A) Promoter & Promoter Group	1,44,24,672	62.8088	1,44,24,672	65.0495
(B1) Institutions	0	0		
(B2) Central Government/ State Government(s)/President of India	0	0		
(B3) Non-Institutions	0	0		
(B) Public	85,41,324	37.1912	77,50,251	34.9505
(C1) Shares underlying DRs	0	0		
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0		
(C) Non-Promoter-Non-Public	0	0		
Total	2,29,65,996	100	2,21,74,923	100.00

The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

MANAGER TO THE BUYBACK

TRUST
In Partnership With Trust.

TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
109/110, Balarama, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4084 5000. Fax: +91 22 4084 5007
Website: www.trustgroup.in
Investor Grievance e-mail: customercare@trustgroup.in
SEBI Registration No.: INM000011120
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
Contact Person: Mr. Ankur Jain
CIN: U67190MH2006PTC162464

For further details please refer to the Company's website (www.goldiam.com) and the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com)

DIRECTORS' RESPONSIBILITY
As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Goldiam International Limited

Sd/- Rashesh Bhansali Executive Chairman DIN: 00057931	Sd/- Anmol Rashesh Bhansali Whole-time Director DIN: 07931599	Sd/- Pankaj Parkhiya Company Secretary
---	--	--

Date: March 3, 2020
Place: Mumbai